

30



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

No. 231]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2005/फाल्गुन 13, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2005/PHALGUNA 13, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2005

का.आ. 294(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, जिसमें मदुरै-कन्याकुमारी सेक्शन के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. तक के मूखण्ड जिसमें बाईपास भी सम्मिलित है, का संनिर्माण (चार लेन बनाने) अनुसूचना, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, कलक्टर, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और उनका उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में तिरुनेलवेली जिले के नंगूनेरी तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 120/0 कि.मी. से 224/0 कि.मी. तक (मदुरै-कन्याकुमारी सेक्शन) पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

जिला : तिरुनेलवेली

तालुक : नंगूनेरी

गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल	
				हेक्टेयर में	वर्ग मीटर में
1	2	3	4	5	6
पूलम	458/27बी	शुष्क	निजी	0.00.40	40
	458/28	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	458/29	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	458/2ए1बी	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	458/2ए1सी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	458/2सी2बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	458/2सी3बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	458/2सी4बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	458/3ए1	शुष्क	निजी	0.09.0	900
	458/3ए2	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	458/3बी	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	458/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.16.5	1650
	458/11बी	शुष्क	निजी	0.06.0	600
	458/30	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	458/31	शुष्क	निजी	0.06.0	600
	458/12बी2	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	458/13बी2	शुष्क	निजी	0.24.0	2400
	458/14बी2	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	474/1ए2	शुष्क	निजी	0.32.0	3200
	476/2ए1ए	शुष्क	निजी	0.05.5	550
	479/9	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.00.06	6
	479/1बी2	नम	निजी	0.05.0	500
	479/2सी1बी	नम	निजी	0.04.5	450

1	2	3	4	5	6
	479/2सी2बी	नम	निजी	0.04.0	400
	479/3बी	नम	निजी	0.02.0	200
	479/4बी2	नम	निजी	0.03.0	300
	479/8बी	नम	निजी	0.05.0	500
	488/1बी	नम	निजी	0.04.0	400
	488/2ए2	नम	निजी	0.01.5	150
	488/2बी2	नम	निजी	0.00.5	50
	489/2बी	नम	निजी	0.01.5	150
	489/4बी	नम	निजी	0.01.5	150
	490/2	नम	निजी	0.01.0	100
	491/2	नम	निजी	0.03.5	350
	494/1ए2	नम	निजी	0.00.5	50
	494/1बी2	नम	निजी	0.00.25	25
	494/2ए2बी	नम	निजी	0.00.10	10
	494/3बी2	नम	निजी	0.01.0	100
	494/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.0	100
	497/1बी2बी	नम	निजी	0.01.0	100
	497/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.0	100
	498/2ए2	नम	निजी	0.00.5	50
	498/2बी2	नम	निजी	0.00.5	50
	499/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.02.5	250
	524/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.00.5	50
	525/2ए2	नम	निजी	0.01.0	100
	525/2बी2	नम	निजी	0.01.0	100
	525/2सी2	नम	निजी	0.01.0	100
	526/1बी	नम	निजी	0.01.0	100
	526/2	नम	निजी	0.01.0	100

1	2	3	4	5	6
	526/3बी2	नम	निजी	0.01.0	100
	526/3सी	नम	निजी	0.01.5	150
	527/3ए2	नम	निजी	0.02.0	200
	527/3बी2	नम	निजी	0.02.0	200
	528/1ए2बी	नम	निजी	0.02.0	200
	528/1सी2	नम	निजी	0.02.0	200
	528/2बी	नम	निजी	0.02.0	200
	528/3बी	नम	निजी	0.02.0	200
	529/3ए1बी	नम	निजी	0.02.0	200
	529/3ए2बी	नम	निजी	0.01.0	100
	529/3बी2	नम	निजी	0.02.5	250
	529/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.05.5	550
	542/3ए2	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	542/3बी2	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	542/4	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	542/5	शुष्क	निजी	0.07.0	700
	542/2बी14	नाथम	निजी	0.03.0	300
	542/2बी15	नाथम	निजी	0.03.5	350
	542/6	शुष्क	निजी	0.00.20	20
	542/7	शुष्क	निजी	0.00.10	10
	542/8	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	544/1	नाथम	निजी	0.03.0	300
	544/2ए	नाथम	निजी	0.01.0	100
	544/2बी	नाथम	निजी	0.01.0	100
	544/3	नाथम	निजी	0.01.0	100
	544/4	नाथम	निजी	0.02.5	250
	544/5	शुष्क	निजी	0.02.5	250
	544/6ए	शुष्क	निजी	0.04.0	400
	544/6बी1	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	544/6बी2	शुष्क	निजी	0.03.5	350

1	2	3	4	5	6
	544/7	शुष्क	निजी	0.44.5	4450
	546/6ए1बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	546/6ए1सी	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	546/6ए16	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	546/6ए17	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	546/6ए18	नाथम	निजी	0.04.5	450
	546/6ए31	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	546/6ए32	शुष्क	निजी	0.02.5	250
	546/19	शुष्क	निजी	0.0.25	25
	546/20	नाथम	निजी	0.08.35	835
	546/15	शुष्क	निजी	0.07.5	750
	546/9बी	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	546/14बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	546/16	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	546/17	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	546/18	शुष्क	निजी	0.16.5	1650
	546/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.0	100
	546/5	शुष्क	निजी	0.05.0	500
	638/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.45.0	4500
	1/1ए2	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	1/5	मनई	निजी	0.01.5	150
	1/6	शुष्क	निजी	0.03.5	350
	1/1बी2बी	मनई	निजी	0.00.95	95
	1/2ए2	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	1/2बी2	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	1/3ए2	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	1/3बी2	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	1/4बी	शुष्क	निजी	0.03.5	350
	2/1ए2	शुष्क	निजी	0.03.0	300

1	2	3	4	5	6
	2/1बी2	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	2/2ए2	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	2/2बी2	शुष्क	निजी	0.06.0	600
	2/3बी	शुष्क	निजी	0.06.0	600
	2/7	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.0	100
	2/6बी2	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	2/6सी2	शुष्क	निजी	0.02.5	250
	2/6डी2	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	2/6एफ2	शुष्क	निजी	0.02.5	250
	2/6जी2	शुष्क	निजी	0.03.5	350
	2/6एच2	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	2/6पी2	शुष्क	निजी	0.05.0	500
	3/1बी2	शुष्क	निजी	0.05.5	550
	3/1सी2	शुष्क	निजी	0.04.5	450
	3/1एफ2	शुष्क	निजी	0.08.0	800
	3/2बी	शुष्क	निजी	0.15.0	1500
	4/1बी	शुष्क	निजी	0.05.0	500
	4/2बी	शुष्क	निजी	0.05.0	500
	6/2	शुष्क	निजी	0.11.0	1100
	19/2ए2बी	मनई	निजी	0.00.90	90
	19/2ए3बी	शुष्क	निजी	0.00.06	6
	22/1ए2	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	22/1 बी 2	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	22/2बी1बी	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	22/2बी2बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	22/2बी3बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	23/2	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	250/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	2.45.0	24500
	650/1ए2ए	शुष्क	निजी	0.09.5	950

1	2	3	4	5	6
	650/1बी2ए	शुष्क	निजी	0.11.0	1100
	650/2बी1	शुष्क	निजी	0.11.5	1150
	650/3ए	शुष्क	निजी	0.11.5	1150
	650/4ए	शुष्क	निजी	0.20.0	2000
	650/5ए	शुष्क	निजी	0.16.0	1600
	660/2सी2ए	शुष्क	निजी	0.03.5	350
	660/3ए2ए	शुष्क	निजी	0.04.5	450
	660/4ए2ए	शुष्क	निजी	0.05.5	550
	660/5बी1	शुष्क	निजी	0.07.0	700
	661/2ए	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	661/3ए	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	661/4ए	शुष्क	निजी	0.09.0	900
	661/5बी2ए	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	661/6बी2ए	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	661/7बी1	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	661/7बी3ए	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	661/8बी2ए	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	662/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.0	100
	663/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.07.0	700
	703/1ए	शुष्क	निजी	0.05.5	550
	703/3ए	शुष्क	निजी	0.02.5	250
	703/4ए	शुष्क	निजी	0.09.0	900
	703/5ए	शुष्क	निजी	0.06.5	650
	703/6ए	शुष्क	निजी	0.12.5	1250
	703/9ए	शुष्क	निजी	0.06.5	650
	705/1ए	शुष्क	निजी	0.04.0	400
	705/2ए1	शुष्क	निजी	0.04.0	400
	705/3ए	शुष्क	निजी	0.07.0	700
	705/5ए	शुष्क	निजी	0.11.0	1100

1	2	3	4	5	6
	705/8	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.5	150
	713/1ए2	मनई	निजी	0.04.32	432
	713/1ए3	मनई	निजी	0.06.05	605
	713/1बी1	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	713/1सी1	मनई	निजी	0.01.30	130
	713/1सी2	मनई	निजी	0.01.90	190
	713/2ए1	शुष्क	निजी	0.06.0	600
	713/3ए	शुष्क	निजी	0.05.5	550
	713/4ए1ए	शुष्क	निजी	0.06.5	650
	713/4ए2ए	शुष्क	निजी	0.02.5	250
	713/4बी1ए	शुष्क	निजी	0.08.74	874
	713/4बी2ए	शुष्क	निजी	0.01.16	116
	713/6ए	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	714/1	शुष्क	निजी	0.18.0	1800
	714/3	शुष्क	निजी	0.11.5	1150
	714/7बी1	शुष्क	निजी	0.03.5	350
	715/2ए	शुष्क	निजी	0.04.0	400
	716/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.35.0	3500
	728/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.04.5	450
	728/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.02.0	200
	729/1ए1	शुष्क	निजी	0.06.0	600
	729/19	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.05.0	500
	729/8ए1	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	729/9ए1	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	729/10ए1	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	729/11ए1	शुष्क	निजी	0.01.0	100

1	2	3	4	5	6
	729/12ए1	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	729/13ए1	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	729/14ए1	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	729/15ए1	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	729/2ए1	शुष्क	निजी	0.05.0	500
	729/6ए1ए	शुष्क	निजी	0.06.0	600
	729/7ए1ए	शुष्क	निजी	0.10.5	1050
	729/16ए	शुष्क	निजी	0.01.0	100
	729/17ए	मनई	निजी	0.03.0	300
	729/18	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	731/1ए2	मनई	निजी	0.01.0	100
	731/1बी2	मनई	निजी	0.02.5	250
	731/2ए2	शुष्क	निजी	0.00.65	65
	731/2बी2	मनई	निजी	0.01.81	181
	735/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.02.0	200
	772/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.0	100
	773/1बी	नम	निजी	0.01.0	100
	773/4बी	नम	निजी	0.00.5	50
	773/5बी	नम	निजी	0.01.0	100
	773/6बी	नम	निजी	0.00.5	50
	773/7बी	नम	निजी	0.01.5	150
	774/3बी	नम	निजी	0.01.0	100
	774/4बी	नम	निजी	0.05.5	550
	775/5बी	नम	निजी	0.01.0	100
	784/1ए2	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	784/1ए3	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	784/2ए	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	784/2बी	शुष्क	निजी	0.00.5	50
	784/1ए4बी	शुष्क	निजी	0.02.5	250

736 GI/05-3

1	2	3	4	5	6
	784/1ए7बी	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	784/1ए8बी	शुष्क	निजी	0.01.5	150
	784/1ए10बी	शुष्क	निजी	0.03.5	350
	784/1ए11बी	शुष्क	निजी	0.02.0	200
	784/1बी2	शुष्क	निजी	0.04.0	400
	784/1सी2	शुष्क	निजी	0.04.0	400
	785/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.48.0	4800
	785/2बी1बी	शुष्क	निजी	0.08.5	850
	785/2बी2बी	शुष्क	निजी	0.04.0	400
	785/2बी4	शुष्क	निजी	0.04.5	450
	785/2बी5बी	शुष्क	निजी	0.03.0	300
	785/3	शुष्क	निजी	0.00.20	20
	794/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	0.01.0	100

[फाइल नं. भा.रा.प्रा./रा.प. 15/एल.ए./आर.आर./तिरुनेलवेली(2)]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28 February, 2005

S.O. 294(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No.7, including the bypass on the stretch from km 120.000 to km 224.000 of Madurai – Kanniyakumari Section in the District of Tirunelveli, in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land for the aforesaid purpose;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Office of the Collector and District Magistrate, Collectorate, Tirunelveli District, Tamil Nadu, in writing, and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal

practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objection;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons, at the office of the said competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structures to be acquired on National Highway No.7 from km 120/0 to km 224/ 0 (Madurai – Kanniyakumari section) in Nanguneri Taluk of Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu.

District: Tirunelveli

Taluk : Nanguneri

Name of the Village	Survey No.	Nature of land	Type of Land	Area of Land in	
				Hectares	Square Meters
1	2	3	4	5	6
Poolam	458/27B	Dry	Private	0.00.40	40
	458/28	Dry	Private	0.01.0	100
	458/29	Dry	Private	0.00.5	50
	458/2A1B	Dry	Private	0.03.0	300
	458/2A1C	Dry	Private	0.00.5	50
	458/2C2B	Dry	Private	0.00.5	50
	458/2C3B	Dry	Private	0.00.5	50
	458/2C4B	Dry	Private	0.00.5	50
	458/3A1	Dry	Private	0.09.0	900
	458/3A2	Dry	Private	0.00.5	50
	458/3B	Dry	Private	0.01.0	100
	458/4	Poramboke	State Government	0.16.5	1650
	458/11B	Dry	Private	0.06.0	600
	458/30	Dry	Private	0.00.5	50
	458/31	Dry	Private	0.06.0	600
	458/12B2	Dry	Private	0.03.0	300
	458/13B2	Dry	Private	0.24.0	2400
	458/14B2	Dry	Private	0.01.5	150

1	2	3	4	5	6
	474/1A2	Dry	Private	0.32.0	3200
	476/2A1A	Dry	Private	0.05.5	550
	479/9	Poramboke	State Government	0.00.06	6
	479/1B2	Wet	Private	0.05.0	500
	479/2C1B	Wet	Private	0.04.5	450
	479/2C2B	Wet	Private	0.04.0	400
	479/3B	Wet	Private	0.02.0	200
	479/4B2	Wet	Private	0.03.0	300
	479/8B	Wet	Private	0.05.0	500
	488/1B	Wet	Private	0.04.0	400
	488/2A2	Wet	Private	0.01.5	150
	488/2B2	Wet	Private	0.00.5	50
	489/2B	Wet	Private	0.01.5	150
	489/4B	Wet	Private	0.01.5	150
	490/2	Wet	Private	0.01.0	100
	491/2	Wet	Private	0.03.5	350
	494/1A2	Wet	Private	0.00.5	50
	494/1B2	Wet	Private	0.00.25	25
	494/2A2B	Wet	Private	0.00.10	10
	494/3B2	Wet	Private	0.01.0	100
	494/4	Poramboke	State Government	0.01.0	100
	497/1B2B	Wet	Private	0.01.0	100
	497/2	Poramboke	State Government	0.01.0	100
	498/2A2	Wet	Private	0.00.5	50
	498/2B2	Wet	Private	0.00.5	50
	499/3	Poramboke	State Government	0.02.5	250
	524/2	Poramboke	State Government	0.00.5	50
	525/2A2	Wet	Private	0.01.0	100
	525/2B2	Wet	Private	0.01.0	100
	525/2C2	Wet	Private	0.01.0	100
	526/1B	Wet	Private	0.01.0	100
	526/2	Wet	Private	0.01.0	100

1	2	3	4	5	6
	526/3B2	Wet	Private	0.01.0	100
	526/3C	Wet	Private	0.01.5	150
	527/3A2	Wet	Private	0.02.0	200
	527/3B2	Wet	Private	0.02.0	200
	528/1A2B	Wet	Private	0.02.0	200
	528/1C2	Wet	Private	0.02.0	200
	528/2B	Wet	Private	0.02.0	200
	528/3B	Wet	Private	0.02.0	200
	529/3A1B	Wet	Private	0.02.0	200
	529/3A2B	Wet	Private	0.01.0	100
	529/3B2	Wet	Private	0.02.5	250
	529/4	Poramboke	State Government	0.05.5	550
	542/3A2	Dry	Private	0.03.0	300
	542/3B2	Dry	Private	0.00.5	50
	542/4	Dry	Private	0.01.0	100
	542/5	Dry	Private	0.07.0	700
	542/2B14	Natham	Private	0.03.0	300
	542/2B15	Natham	Private	0.03.5	350
	542/6	Dry	Private	0.00.20	20
	542/7	Dry	Private	0.00.10	10
	542/8	Dry	Private	0.01.0	100
	544/1	Natham	Private	0.03.0	300
	544/2A	Natham	Private	0.01.0	100
	544/2B	Natham	Private	0.01.0	100
	544/3	Natham	Private	0.01.0	100
	544/4	Natham	Private	0.02.5	250
	544/5	Dry	Private	0.02.5	250
	544/6A	Dry	Private	0.04.0	400
	544/6B1	Dry	Private	0.01.0	100
	544/6B2	Dry	Private	0.03.5	350

736 GI/05-4

1	2	3	4	5	6
	544/7	Dry	Private	0.44.5	4450
	546/6A1B	Dry	Private	0.00.5	50
	546/6A1C	Dry	Private	0.01.0	100
	546/6A16	Dry	Private	0.02.0	200
	546/6A17	Dry	Private	0.02.0	200
	546/6A18	Natham	Private	0.04.5	450
	546/6A31	Dry	Private	0.01.0	100
	546/6A32	Dry	Private	0.02.5	250
	546/19	Dry	Private	0.0.25	25
	546/20	Natham	Private	0.08.35	835
	546/15	Dry	Private	0.07.5	750
	546/9B	Dry	Private	0.03.0	300
	546/14B	Dry	Private	0.00.5	50
	546/16	Dry	Private	0.01.5	150
	546/17	Dry	Private	0.01.5	150
	546/18	Dry	Private	0.16.5	1650
	546/4	Poramboke	State Government	0.01.0	100
	546/5	Dry	Private	0.05.0	500
	638/4	Poramboke	State Government	0.45.0	4500
	1/1A2	Dry	Private	0.00.5	50
	1/5	Manai	Private	0.01.5	150
	1/6	Dry	Private	0.03.5	350
	1/1B2B	Manai	Private	0.00.95	95
	1/2A2	Dry	Private	0.02.0	200
	1/2B2	Dry	Private	0.03.0	300
	1/3A2	Dry	Private	0.02.0	200
	1/3B2	Dry	Private	0.01.5	150
	1/4B	Dry	Private	0.03.5	350
	2/1A2	Dry	Private	0.03.0	300

1	2	3	4	5	6
	2/1B2	Dry	Private	0.01.0	100
	2/2A2	Dry	Private	0.01.5	150
	2/2B2	Dry	Private	0.06.0	600
	2/3B	Dry	Private	0.06.0	600
	2/7	Poramboke	State Government	0.01.0	100
	2/6B2	Dry	Private	0.03.0	300
	2/6C2	Dry	Private	0.02.5	250
	2/6D2	Dry	Private	0.03.0	300
	2/6F2	Dry	Private	0.02.5	250
	2/6G2	Dry	Private	0.03.5	350
	2/6H2	Dry	Private	0.02.0	200
	2/6P2	Dry	Private	0.05.0	500
	3/1B2	Dry	Private	0.05.5	550
	3/1C2	Dry	Private	0.04.5	450
	3/1F2	Dry	Private	0.08.0	800
	3/2B	Dry	Private	0.15.0	1500
	4/1B	Dry	Private	0.05.0	500
	4/2B	Dry	Private	0.05.0	500
	6/2	Dry	Private	0.11.0	1100
	19/2A2B	Manai	Private	0.00.90	90
	19/2A3B	Dry	Private	0.00.06	6
	22/1A2	Dry	Private	0.01.0	100
	22/1B2	Dry	Private	0.01.0	100
	22/2B1B	Dry	Private	0.01.0	100
	22/2B2B	Dry	Private	0.00.5	50
	22/2B3B	Dry	Private	0.00.5	50
	23/2	Dry	Private	0.01.5	150
	250/4	Poramboke	State Government	2.45.0	24500
	650/1A2A	Dry	Private	0.09.5	950

1	2	3	4	5	6
	650/1B2A	Dry	Private	0.11.0	1100
	650/2B1	Dry	Private	0.11.5	1150
	650/3A	Dry	Private	0.11.5	1150
	650/4A	Dry	Private	0.20.0	2000
	650/5A	Dry	Private	0.16.0	1600
	660/2C2A	Dry	Private	0.03.5	350
	660/3A2A	Dry	Private	0.04.5	450
	660/4A2A	Dry	Private	0.05.5	550
	660/5B1	Dry	Private	0.07.0	700
	661/2A	Dry	Private	0.00.5	50
	661/3A	Dry	Private	0.01.0	100
	661/4A	Dry	Private	0.09.0	900
	661/5B2A	Dry	Private	0.02.0	200
	661/6B2A	Dry	Private	0.01.0	100
	661/7B1	Dry	Private	0.03.0	300
	661/7B3A	Dry	Private	0.00.5	50
	661/8B2A	Dry	Private	0.02.0	200
	662/3	Poramboke	State Government	0.01.0	100
	663/3	Poramboke	State Government	0.07.0	700
	703/1A	Dry	Private	0.05.5	550
	703/3A	Dry	Private	0.02.5	250
	703/4A	Dry	Private	0.09.0	900
	703/5A	Dry	Private	0.06.5	650
	703/6A	Dry	Private	0.12.5	1250
	703/9A	Dry	Private	0.06.5	650
	705/1A	Dry	Private	0.04.0	400
	705/2A1	Dry	Private	0.04.0	400
	705/3A	Dry	Private	0.07.0	700
	705/5A	Dry	Private	0.11.0	1100

1	2	3	4	5	6
	705/8	Poramboke	State Government	0.01.5	150
	713/1A2	Manai	Private	0.04.32	432
	713/1A3	Manai	Private	0.06.05	605
	713/1B1	Dry	Private	0.01.0	100
	713/1C1	Manai	Private	0.01.30	130
	713/1C2	Manai	Private	0.01.90	190
	713/2A1	Dry	Private	0.06.0	600
	713/3A	Dry	Private	0.05.5	550
	713/4A1A	Dry	Private	0.06.5	650
	713/4A2A	Dry	Private	0.02.5	250
	713/4B1A	Dry	Private	0.08.74	874
	713/4B2A	Dry	Private	0.01.16	116
	713/6A	Dry	Private	0.03.0	300
	714/1	Dry	Private	0.18.0	1800
	714/3	Dry	Private	0.11.5	1150
	714/7B1	Dry	Private	0.03.5	350
	715/2A	Dry	Private	0.04.0	400
	716/4	Poramboke	State Government	0.35.0	3500
	728/4	Poramboke	State Government.	0.04.5	450
	728/2	Poramboke	State Government	0.02.0	200
	729/1A1	Dry	Private	0.06.0	600
	729/19	Poramboke	State Government	0.05.0	500
	729/8A1	Dry	Private	0.01.0	100
	729/9A1	Dry	Private	0.00.5	50
	729/10A1	Dry	Private	0.00.5	50
	729/11A1	Dry	Private	0.01.0	100

736 GI/05-5

1	2	3	4	5	6
	729/12A1	Dry	Private	0.01.0	100
	729/13A1	Dry	Private	0.01.0	100
	729/14A1	Dry	Private	0.01.5	150
	729/15A1	Dry	Private	0.01.5	150
	729/2A1	Dry	Private	0.05.0	500
	729/6A1A	Dry	Private	0.06.0	600
	729/7A1A	Dry	Private	0.10.5	1050
	729/16A	Dry	Private	0.01.0	100
	729/17A	Manai	Private	0.03.0	300
	729/18	Dry	Private	0.00.5	50
	731/1A2	Manai	Private	0.01.0	100
	731/1B2	Manai	Private	0.02.5	250
	731/2A2	Dry	Private	0.00.65	65
	731/2B2	Manai	Private	0.01.81	181
	735/2	Poramboke	State Government	0.02.0	200
	772/2	Poramboke	State Government	0.01.0	100
	773/1B	Wet	Private	0.01.0	100
	773/4B	Wet	Private	0.00.5	50
	773/5B	Wet	Private	0.01.0	100
	773/6B	Wet	Private	0.00.5	50
	773/7B	Wet	Private	0.01.5	150
	774/3B	Wet	Private	0.01.0	100
	774/4B	Wet	Private	0.05.5	550
	775/5B	Wet	Private	0.01.0	100
	784/1A2	Dry	Private	0.00.5	50
	784/1A3	Dry	Private	0.01.5	150
	784/2A	Dry	Private	0.00.5	50
	784/2B	Dry	Private	0.00.5	50
	784/1A4B	Dry	Private	0.02.5	250

1	2	3	4	5	6
	784/1A7B	Dry	Private	0.01.5	150
	784/1A8B	Dry	Private	0.01.5	150
	784/1A10B	Dry	Private	0.03.5	350
	784/1A11B	Dry	Private	0.02.0	200
	784/1B2	Dry	Private	0.04.0	400
	784/1C2	Dry	Private	0.04.0	400
	785/4	Poramboke	State Government	0.48.0	4800
	785/2B1B	Dry	Private	0.08.5	850
	785/2B2B	Dry	Private	0.04.0	400
	785/2B4	Dry	Private	0.04.5	450
	785/2B5B	Dry	Private	0.03.0	300
	785/3	Dry	Private	0.00.20	20
	794/2	Poramboke	State Government	0.01.0	100

[F

[F. No. NHA/Tech./15/LA/RR/Tirunelveli(2)]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.